



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 भाद्र 1934 (श0)
(सं0 पटना 464) पटना, शुक्रवार, 7 सितम्बर 2012

सं0 3-ए-2-वे0पु0-05/12-9403 /वि0

वित्त विभाग

संकल्प

5 सितम्बर 2012

विषय :—राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग के अधीन विभिन्न पदों का दिनांक 01.01.06 से संशोधित एवं पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

राज्य सरकार द्वारा दो नए संवर्गों का गठन किया गया है— (i) बिहार ग्रामीण विकास सेवा और (ii) बिहार राजस्व सेवा । इन दोनों सेवाओं का आरम्भ पर्यवेक्षक स्तर के अराजपत्रित पद क्रमशः ग्रामीण विकास पदाधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक से होता है । इन पदों से प्रथम प्रोन्नति क्रमशः प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के पद पर की जाती है। पूर्व में यह प्रावधान नहीं था । अंचल अधिकारी का पद एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद बिहार प्रशासनिक सेवा में मूल कोटि का पद था ।

2. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना सं० 3/स्था० रा०भू०वि० 4020/08-09(3)/रा०, जी०एस०आर०, दिनांक 15.01.2010 के द्वारा राजस्व सेवा नियमावली का गठन किया गया है।

3. सेवा नियमावली में स्थापित पदस्थिति में विहित पदों में से मूलकोटि एवं प्रोन्नति के स्तर के सभी पदों का वेतनमान, वित्त विभाग के संकल्प संख्या 630, दिनांक 21.01.2010 के द्वारा सूचित नहीं किया जा सका है। अतएव, संकल्प संख्या 630, दिनांक 21.01.2010, संकल्प सं० 10041, दिनांक 03.11.2011 एवं संकल्प संख्या 11989, दिनांक 30.12.2011 में राजस्व सेवा के पदों के लिए स्वीकृत/संशोधित वेतनमान के नए परिवेश में संशोधन/स्वीकृति का विषय विचाराधीन था।

4. सम्यक् विचारोपरान्त राजस्व सेवा नियमावली में विहित पदों का राज्य कर्मियों के लिए दिनांक 01.01.06 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान को दृष्टिपथ में रखते हुए निम्नलिखित संशोधित/पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है-

क्रसं०	पदनाम		अपुनरीक्षित वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
1.	अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड		रु० 6500-10500	PB-2+4800
	(i)	अंचल अधिकारी		
	(ii)	कार्यपालक दंडाधिकारी		
	(iii)	सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी		
	(iv)	चकबंदी पदाधिकारी		

2.	भूमि सुधार उप-समाहर्ता एवं समकक्ष ग्रेड		रु० 8000-13500	PB-3+5400
	(i)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता		
	(ii)	सहायक निदेशक (कृषि गणना)		
	(iii)	सहायक निदेशक, सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग		
	(iv)	अनुदेशक, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान, पटना		

	(v)	अनुदेशक, सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, पटना,		
	(vi)	शोध पदाधिकारी, चकबंदी निदेशालय,		
	(vii)	अपर अनुमंडल पदाधिकारी, भू-हदबंदी		
	(viii)	अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी		

3.	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड		रु० 10,000-15200	PB-3+6600
	(i)	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी		
	(ii)	विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग		
	(iii)	सहायक निदेशक चकबंदी		
	(iv)	उप-निदेशक, कृषि गणना		
	(v)	सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय		
	(vi)	उप-निदेशक, सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग		

4.	अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी एवं समकक्ष ग्रेड		रु० 12,000-16500	PB-3+7600
	(i)	अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी		
	(ii)	प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त		
	(iii)	प्राचार्य, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान, पटना		

	(iv)	उप निदेशक, चकबंदी		
	(v)	प्राचार्य, सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, गया		
	(vi)	संयुक्त निदेशक, कृषि गणना		

5. उपर्युक्त राजस्व सेवा के पदाधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ, राजस्व सेवा नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि दिनांक 15.01.2010 से अनुमान्य होगा । दिनांक 01.01.06 के प्रभाव से स्वीकृत वेतनमान में पुनरीक्षण लाभ दिनांक 15.01.2010 से यथा संशोधित/पुनरीक्षित होगा तथा यह पुनरीक्षण संकल्प संख्या 630, दिनांक 21.01.10 के आलोक में किया जाएगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 464-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>